



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या - 36 राँची, बुधवार

23 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 453-456
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि-पत्र

04 अक्टूबर, 2019 ई०।

संख्या-12/पी०5-1047/2014 (खण्ड)- 5323-- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-6371, दिनांक-22.11.2018 के क्रम संख्या-80 में अंकित नाम "श्री इकुट डुंगडुंग" के स्थान पर "इकुड डुंगडुंग" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। इस अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2019 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-102/2018- 5223 -- श्री आलोक, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, खूँटी को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-11.08.2019 से 06.09.2019 तक कुल 27 (सत्ताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की एवं कैंसर रोग के ईलाज हेतु दिनांक-27.08.2019 से 30.08.2019 तक विदेश (सिंगापुर) जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री आलोक, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2019 ई०।

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)- 5245 --गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक-05.08.2016 द्वारा पुनर्गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी एवं जयप्रकाश आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की कार्यावधि विभागीय अधिसूचना संख्या-6638, दिनांक-06.12.2018 द्वारा दिनांक-09.08.2019 तक विस्तारित थी। इस आयोग की कार्यावधि दिनांक-10.08.2019 के प्रभाव से आगामी छः माह यथा दिनांक-09.02.2020 तक के लिए पुनः अंतिम रूप से विस्तारित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियुस कुल्लू,
सरकार के उप सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2019 ई०।

संख्या-13/पी०1-8002/2013 (खण्ड)- 5248/सी०, श्री आशुतोष शेखर, भा०पु०से० (2014), पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी०1-8002/2013 (खण्ड)- 5249/सी०, श्री ऋषव कुमार झा, भा०पु०से० (2016), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तोरपा, खूँटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी०1-8002/2013 (खण्ड)- 5250/सी०, श्री आलोक, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक, खूँटी अवकाश के उपभोग के पश्चात् पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

में SUMEET पिता SRI SHIVA NANDAN PRASAD SINGH, शपथ पत्र सं० 117, दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 के अनुसार SUMEET SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

SUMEET एवं SUMEET SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF VILLAGE-- FLAT No.-310, BUILDING No.-29, MANTRI RESIDENCY,
BANNERGHATTA ROAD, BANGALORE-560076,

PRESENT ADDRESS- Qr. No.-2085, SECTOR-1V/C,
P.O.+P.S.-SECTOR-1V
DIST.- BOKARO, (JHARKHAND).
PIN-827004.

प्रकाशनार्थ सूचना

में ANJALI KUMARI पिता SRI KRIPA SHANKAR CHAUHAN शपथ पत्र सं० 222, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के अनुसार ANJALI VATSA के नाम से जानी जाऊँगी।

ANJALI KUMARI एवं ANJALI VATSA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF VILLAGE-- Qr. No. 1289, SECTOR-12/A,
P.O.+ P.S.- SECTOR-12, B.S. CITY
DIST.- BOKARO, (JHARKHAND).
